



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 1165 राँची, बुधवार,

26 दिसम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 दिसम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-12/2015-2905 (HRMS)-- श्री इन्द्रदेव मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-749/03, गृह जिला-साहेबगंज), तत्कालीन उप निदेशक, पंचायती राज, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-338/बी, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 द्वारा पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-179, दिनांक 21 जनवरी, 2015 के माध्यम से वित्तीय अनियमितता संबंधी आरोप उपलब्ध कराया गया।

श्री मंडल के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक-3203, दिनांक 09 अप्रैल, 2015 तथा पत्रांक-1532, दिनांक 20 फरवरी, 2017 द्वारा पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-969, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा श्री मंडल के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध गया, जिसमें इनके विरुद्ध वर्ष 2007 के पश्चात् अनुपलब्ध अभिश्रव पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने

तथा भंडार पंजी का नियमित सत्यापन नहीं करने एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5160, दिनांक 06 अप्रैल, 2017 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री मंडल के पत्रांक-1897, दिनांक 25 अप्रैल, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

श्री मंडल के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6479, दिनांक 25 मई, 2017 एवं पत्रांक-5043, दिनांक 06 जुलाई, 2018 द्वारा आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा से मंतव्य की माँग की गयी। प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के पत्रांक-985, दिनांक 27 सितम्बर, 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि कार्यालय प्रधान के रूप में इनके द्वारा और अधिक तत्परता बरती गई होती तो वित्तीय अनियमितता की संभावना कम होती।

श्री मंडल के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं प्रमंडलीय आयुक्त, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री इन्द्रदेव मंडल, झां०प्र०से०, तत्कालीन उप निदेशक, पंचायती राज, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	INDERDEO MANDAL BHR/BAS/3617	श्री इन्द्रदेव मंडल, झां०प्र०से०, तत्कालीन उप निदेशक, पंचायती राज, सिंहभूम (कोल्हान) प्रमंडल, चाईबासा को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
